



आवेदन प्रक्रिया: शुरुआत से पंजीकरण तक के 10 कदम

1. **आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी इकट्ठा करें:** विशिष्ट कार्यक्रमों की अतिरिक्त आवश्यकताएं हो सकती हैं। कृपया सभी दिशा-निर्देशों को ठीक से पढ़ें।

वर्तमान में DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट में नामांकित

- विद्यार्थी आईडी नंबर (7 अंक) - रिपोर्ट कार्ड देखें
- माता - पिता का ईमेल पता

DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट में नए हैं या वापस लौट रहे हैं

- माता - पिता का ईमेल पता
- निवास का प्रमाण - गैस, पानी, बिजली का बिल (अधिकतम 60 दिन पुराना), गिरवी/लीज का अनुबंध, नोटरीकृत या DCSD के फॉर्म पर हलफनामा। हलफनामे में सूचीबद्ध सभी दस्तावेज लाएं। सूचीबद्ध दस्तावेज़ों के अलावा कोई अन्य दस्तावेज़ जमा करवाने की स्थिति में आवेदन को अयोग्य माना जाएगा।
- जन्म प्रमाणपत्र
- 2018 फॉल सेमेस्टर का रिपोर्ट कार्ड
- M.A.P. टेस्ट स्कोर की आवश्यकता केवल हाई अचीवर्स मैगनेट प्रोग्राम सीट के लिए आवेदन करने के लिए ही होती है

2. **रिसर्च स्कूल चॉइस प्रोग्राम और स्कूल** - अपने बच्चे की सीखने की शैली, शक्ति और रुचियों के मुताबिक प्रोग्राम चुनें।

3. **प्रोग्राम लॉटरी पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया और लॉटरी पूल की समीक्षा करें।**

<http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/programs/>

4. **परिवहन नीति पर विचार करें।**

5. **अपने प्रोग्राम और स्कूल चुनें।**

6. <http://www.yourchoicedekalb.org> पर जाएं। आवेदन करने के लिए 'अभी आवेदन करें/साइन इन करें' टैब पर क्लिक करें।

DeKalb हाई स्कूल ऑफ़ आर्ट्स (D.S.A.) (ग्रेड 8-12) और DeKalb एलिमेंट्री स्कूल ऑफ़ आर्ट्स (D.E.S.A.) (ग्रेड 4-7) के लिए ऑडिशन के आवेदकों को

- **सबसे पहले:** स्कूल चॉइस का आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा।



- **उसके बाद:** ऑडिशन का आवेदन वाला पैकेट सीधे स्कूल को मेल या डिलीवर करना होगा। **IB प्रेप (ग्रे. 9, 10) और IB डिप्लोमा (ग्रे. 11, 12) के आवेदक** जो Tucker हाई, Druid Hills हाई या MLK जूनियर हाई स्कूल में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें
- **सबसे पहले:** स्कूल चॉइस का आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा।
- **उसके बाद:** हर IB स्कूल में अलग से IB स्कूल आवेदन पृष्ठों को एक मेल में सबमिट करना होगा।

DSA और DESA ऑडिशन और IB प्रेप या IB डिप्लोमा आवेदन पृष्ठ

<http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/forms-and-brochures/> पर उपलब्ध हैं अधिक जानकारी के लिए, कृपया <http://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/> देखें।

7. आवेदन की स्थिति अपडेट और सूचनाओं के लिए **अपने ईमेल इनबॉक्स और आवेदन डैशबोर्ड पर नज़र बनाए रखें।** नियमित रूप से ईमेल देखते रहना और आवेदन में लॉग इन करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको कोई ईमेल नहीं मिला है, तो कृपया अपने ईमेल खाते के स्पैम या जंक फ़ोल्डर में देखें।
8. **लॉटरी (22 मार्च, 2019) के दिन, अपने आवेदन में लॉग इन करके नतीजे देखें।** अपने ईमेल और स्कूल चॉइस डैशबोर्ड को नियमित रूप से देखते रहना आपकी जिम्मेदारी है।
9. अगर आवेदक को किसी प्रोग्राम के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, **तो चयन पत्र में दी गई समय सीमा तक ऑनलाइन डैशबोर्ड पर 'स्वीकार करें' या 'अस्वीकार करें' चुनें।** चयन पत्र ईमेल द्वारा भेजा जाएगा। सीट प्लेसमेंट ऑफ़र स्वीकार कर लेने के बाद, अन्य सभी विकल्पों को अस्वीकार कर दिया जाएगा क्योंकि एक विद्यार्थी को दो अलग-अलग स्कूलों या प्रोग्राम में नामांकित नहीं किया जा सकता।
10. **समय सीमा के भीतर अपनी सीट स्वीकार करने के लिए स्कूल में पंजीकरण करें।** पहले दौर की लॉटरी के नतीजों के लिए पंजीकरण की समय सीमा पांच दिनों की है। **चयन पत्र में दी गई समय सीमा तक स्कूल में पंजीकृत नहीं करने वाले किसी भी आवेदक की सीटें जब्त कर ली जाएंगी/अपने आप अस्वीकृत हो जाएंगी और प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में उनके क्रम के अनुसार दी जाएंगी।** माता-पिता द्वारा किसी सीट को अस्वीकार कर दिए जाने या अपने आप अस्वीकृत हो जाने पर, सीट फिर से मिलना संभव नहीं है।